

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 जनवरी 2015—माघ 3, शक 1936

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2015

क्र. एफ-3-91-2012-तेरह.—राज्य शासन, एतद्वारा निजी पूंजी निवेश पर आधारित ताप विद्युत् संयंत्र की स्थापना किये जाने हेतु शासकीय भूमि उपलब्ध होने पर उसके प्रबंधन हेतु मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचना दिनांक 4 अक्टूबर 2011 के द्वारा प्रकाशित “मध्यप्रदेश राज्य (ताप विद्युत् संयंत्रों की स्थापना) भूमि प्रबंधन नियम, 2011” को राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-16-14-2013-सात-शा.-2-ए के जारी होने की तिथि अर्थात् 30 मई 2013 से अधिष्ठित (निरस्त) करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज अग्रवाल, उपसचिव.